



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2005/फाल्गुन 2, 1926

No. 53]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2005/PHALGUNA 2, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

न्यू शिपर समीक्षा शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2005

विषय :—मै. फोशन चान चेंग जिन यी सेरामिक कम्पनी लि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादनकर्ता) के साथ मै. ऐबल एसीई (एम) एस डी एन, बी एच डी मलेशिया (निर्यातक) के माध्यम से मै. जोयसन सेरामिक मैटीरियल्स कम्पनी लि., चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइल्स के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की (नियम 22 के अंतर्गत) न्यू शिपर समीक्षा शुरू करना।

सं. 15/30/2004-डी जी ए डी.—मै फोशन चान चेंग जिन यी सेरामिक कम्पनी लि०, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादनकर्ता) के साथ मै० ऐबल एसीई (एम) एस डी एन, बी एच डी मलेशिया (निर्यातक) के माध्यम से मै० जोयसन सेरामिक मैटीरियल्स कम्पनी लि०, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुसार एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य से विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइल्स (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के निर्यातों पर प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के एक पूर्व मामले में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गयी थी जिसमें सरकार ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 69 के अंतर्गत दिनांक 2.5.2002 की अधिसूचना सं० 50/2002 सीमाशुल्क के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित किया है।

2. प्राधिकारी ने 3 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० 37/1/2001-डी जी ए डी के तहत चीन जनवादी गणराज्य और यू ए ई से विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलों के आयात के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए थे और सरकार द्वारा दिनांक 2 मई, 2002 की अधिसूचना सं० 50/2002-सीमाशुल्क के तहत केन्द्र सरकार द्वारा एक अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। दिनांक 5 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं० 37/1/2001 - डी जी ए डी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे और 1 मई, 2003 की अधिसूचना सं० 73/2003-सीमाशुल्क के तहत निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था।

शामिल निर्यातक

3. वर्तमान जांच 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार मै0 एबल एसीई (एम) एस डी एन बी एच डी, मलेशिया (निर्यातक) के जरिए मै0 जोएसन सिरैमिक मैटेरियल्स कम्पनी लि0, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) के साथ मै0 फोसेन चान चेंग जिन यी सिरैमिक कम्पनी लि0 चीन जन. गणराज्य (उत्पादक) द्वारा विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलों से संबंधित दायर आवेदन से संबंधित है।

नए निर्यातक के संबंध में समीक्षा की शुरुआत

4. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्राधिकारी के लिए प्रश्नगत निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ समीक्षा करना अपेक्षित है जिसने चीन जन. गणराज्य से विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के पहले मामले की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात न किया हो और आवेदक यह प्रदर्शित कर सकता हो कि वे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने वाले निर्यातक देश में किन्हीं निर्यातकों को अथवा उत्पादकों से संबंधित नहीं हैं।

5. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत यथानिर्धारित शर्तों से प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट होने के बाद दिनांक 05.02.2003 की अधिसूचना सं0 37/1/2001- डीजीएडी के तहत प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में तथा दिनांक 01.05.2003 की अधिसूचना सं0 73/2003- सीमाशुल्क को ध्यान में रखते हुए मै0 एबल एसीई (एम) एस डी एन बीएचडी, मलेशिया (निर्यातक) के जरिए मै0 जोएसन सिरैमिक मैटेरियल्स कम्पनी लि0, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) के साथ मै0 फोसेन चान चेंग जिन यी सिरैमिक कम्पनी लि0 चीन जन. गणराज्य (उत्पादक) के अनुरोध के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेते हैं।

6. न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लेने के बाद 04 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं0 37/1/2001- डीजीएडी के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की चीन जन. गणराज्य से विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलों के आयात के बारे में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार मै0 एबल एसीई (एम) एसडीएन बीएचडी, मलेशिया (निर्यातक) के जरिए मै0 जोएसन सिरैमिक मैटेरियल्स कम्पनी लि0, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) के साथ मै0 फोसेन चान चेंग जिन यी सिरैमिक कम्पनी लि0 चीन जन. गणराज्य (उत्पादक) के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए एतद्वारा जांच प्रारंभ करते हैं।

7. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार और दिनांक 01.05.2003 की अधिसूचना सं० 73/2003- सीमाशुल्क को ध्यान में रखते हुए इस समीक्षा के पूरा होने तक सम्बद्ध वस्तु के मै० एबल एसीई (एम) एसडीएन बीएचडी, मलेशिया (निर्यातक) के जरिए मै० जोएसन सिरैमिक मैटेरियल्स कम्पनी लि०, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) के साथ मै० फोसेन चान चेंग जिन यी सिरैमिक कम्पनी लि० चीन जन. गणराज्य (उत्पादक) द्वारा किए गए विट्रीफाइड/पोर्सिलेन के सभी निर्यातों पर अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करते हैं।

जांच अवधि

8. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2005 (6 महीने) है।

सूचना प्रस्तुत करना

9. हितबद्ध पक्षकारों को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित प्रारूप में और ढंग से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत कर सकें और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कक्ष सं० 240, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 को अपने विचारों से अवगत करा सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में और ढंग से उक्त प्राधिकारी को जांच से संबंधित अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

समय सीमा

10. इस समीक्षा से संबंधित सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि ये जांच अवधि पूरे होने की तारीख से उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास 40 दिनों के भीतर पहुँच सके। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

11. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

12. सभी हितबद्ध पक्षकार उक्त नियमों के नियम 7(1) के अनुसार उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय सारांश उपलब्ध कराएँगे।

13. ऐसे मामले में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिश कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझते हैं।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NEW SHIPPER REVIEW INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2005

Subject :—Initiation of New Shipper Review (under Rule 22) of Anti-Dumping duty imposed on imports of Vitrified/Porcelain Tiles requested by M/s. Foshan Chan Cheng Jin Yi Ceramic Company Ltd., China PR (Producer) with M/s. Joyson Ceramic Materials Company Ltd., China PR (Exporter) through M/s. Able Ace (M) Sdn Bhd, Malaysia (Exporter).

No.15/30/2004-DGAD: M/s. Foshan Chan Cheng Jin Yi Ceramic Company Ltd., China PR (Producer) with M/s. Joyson Ceramic Materials Company Ltd., China PR (exporter) through M/s. Able Ace (M) Sdn Bhd, Malaysia (Exporter) has filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) requesting for a review of the Anti-Dumping duty recommended by the Designated Authority on exports of Vitrified /Porcelain Tiles (hereinafter referred to as subject goods) from China PR in the earlier case of Anti-Dumping investigation where Government has notified the Anti-Dumping duty vide Notification No.50/2002-Customs dated 2.5.2002 falling under Chapter 69 of Customs Tariff Act.

2. The Authority had notified the preliminary findings concerning imports of vitrified/porcelain tiles from China PR and UAE vide Notification No.37/1/2001-DGAD dated 3rd December 2001 and provisional Anti-Dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 50/2002-Customs dated 2nd May, 2002. Final finding were issued vide notification No. 37/1/2001-DGAD dated 5th February, 2003 and definitive duty was imposed vide Notification No 73/2003 Customs dated 1st May, 2003.

EXPORTER INVOLVED:

3. The present investigations relate to an application filed concerning exports of Vitrified/Porcelain Tiles by M/s. Foshan Chan Cheng Jin Yi Ceramic Company Ltd., China PR (Producer) with M/s. Joyson Ceramic Materials Company Ltd., China PR (exporter) through M/s. Able Ace (M) Sdn Bhd, Malaysia (Exporter) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended.

INITIATION OF REVIEW IN RESPECT OF NEW EXPORTER:

4. The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rules made there under require the Authority to review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in question who has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the earlier case of Anti-Dumping investigation concerning imports of Vitrified/Porcelain Tiles from China PR and applicant is able to show that they are not related to any of the exporters and producers in the exporting country who are subjected to anti-dumping duty.

5. The Authority having been prima facie satisfied with the conditions as prescribed under Rule 22 of Anti-Dumping Rules, decides to review the Anti-Dumping duty imposed by the Central Government in pursuance to the recommendations made by the Authority vide Notification No. 37/1/2001-DGAD dated 5.2.2003, and having regard to Notification No. 73/2003 Customs dated 1.5.2003, as requested by M/s. Foshan Chan Cheng Jin Yi Ceramic Company Ltd., China PR (Producer) with M/s. Joyson Ceramic Materials Company Ltd., China PR (exporter) through M/s. Able Ace (M) Sdn Bhd, Malaysia (Exporter).

6. Having decided to initiate New Shipper review the final findings notified vide Notification No.37/1/2001-DGAD dated 4th February, 2003 needs to be reviewed with regard to import of Vitrified/Porcelain Tiles from PR China, the Authority hereby initiates investigations to determine separate dumping margin in respect of M/s. Foshan Chan Cheng Jin Yi Ceramic Company Ltd., China PR (Producer) with M/s. Joyson Ceramic Materials Company Ltd., China PR (exporter) through M/s. Able Ace (M) Sdn Bhd, Malaysia (Exporter) in accordance with Rule 22 of the AD Rules.

7. The Authority recommends provisional assessment on all exports of vitrified/porcelain tiles made by M/s. Foshan Chan Cheng Jin Yi Ceramic Company Ltd., China PR (Producer) with M/s. Joyson Ceramic Materials Company Ltd., China PR (exporter) through M/s. Able Ace (M) Sdn Bhd, Malaysia (Exporter) of subject goods, till this review is completed, in accordance with the Rule 22 of the AD Rules and having regard to Notification No. 73/2003 Customs dated 1.5.2003

PERIOD OF INVESTIGATION:

8. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2005 to 30th September 2005 (6 months).

SUBMISSION OF INFORMATION:

9. The interested parties are being informed separately to enable them to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Room No. 240, Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its

submissions relevant to the investigation to the above Authority in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT:

10. All information relating to this review should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than forty days from the date of completion of period of investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available before the Authority in accordance with the Rules Supra.

INSPECTION OF PUBLIC FILE:

11. In terms of Rule 6(7) of Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

12. All interested parties shall provide a Confidential summary in terms of Rule 7(2), for the Confidential information provided as per Rule 7(1) of the rules Supra.

13. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority